

पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्राहि नॉलेज सेंटर

प्रलिमिस के लिये:

प्रधानमंत्री सहज बजिली हर घर योजना (सौभाग्य), ग्रीन एनर्जी कॉरडिओर (GEC), नेशनल स्मार्ट ग्राहि मशिन (NSGM), स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम (SMNP)।

मेन्स के लिये:

एनर्जी ट्रांजिशन को आकार देने वाली भारतीय पहल, स्मार्ट मीटर के लाभ और संबंधित चुनौतियाँ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने 'वर्चुअल स्मार्ट ग्राहि नॉलेज सेंटर' (Virtual SGKC) और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया।

वर्चुअल स्मार्ट ग्राहि नॉलेज सेंटर (Virtual SGKC) क्या है?

- मानेसर (हरयाणा) में पावरग्राहि केंद्र के भीतर स्थिति वर्चुअल स्मार्ट ग्राहि नॉलेज सेंटर (Virtual SGKC) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है।
- '[आजादी का अमृत महोत्सव](#)' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में यह पहल स्मार्ट ग्राहि प्रौद्योगिकियों में नवाचार, उद्यमता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये विश्व स्तर पर उत्कृष्टता के प्रमुख केंद्रों में से एक होगी।
- यह पावरग्राहि द्वारा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के समर्थन से फरंटियर स्मार्ट ग्राहि प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और उन्नति के लिये यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) की तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया है।


इस पहल का महत्व:

- SGKC का लक्ष्य स्मार्ट ग्राहि प्रौद्योगिकियों में नवाचार, उद्यमशीलता और अनुसंधान को बढ़ावा देने और बजिली वितरण क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिये विश्व स्तर पर उत्कृष्टता के प्रमुख केंद्रों में से एक बनना है।
- यह SGKC के भौतिक सेटअप के डिजिटल पदचाहिन को सक्षम बनाएगा, जिसकी आवश्यकता कोवडि-19 महामारी के दौरान महसूस की गई थी।

स्मार्ट ग्राहि:

- परचियः**
 - स्मार्ट ग्राहि ऑटोमेशन, संचार और आईटी सिस्टम के साथ एक विद्युत ग्राहि है जो उत्पादन से खपत तक के बिंदुओं (यहाँ तक कि उपकरणों के स्तर तक) तक बजिली के प्रवाह की नियंत्रणी और बजिली के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है या वास्तविक समय में नकिट उत्पादन से मेल खाने के लिये लोड को कम कर सकता है।
 - कुशल पारेषण और वितरण प्रणाली (Efficient Transmission & Distribution Systems), सिस्टम संचालन, उपभोक्ता और नवीकरणीय एकीकरण को लागू करके स्मार्ट ग्राहि/वकिसित किये जा सकते हैं।
 - स्मार्ट ग्राहि सल्यूशन (Smart Grid Solutions) वास्तविक समय में बजिली के प्रवाह की नियंत्रणी, माप और नियंत्रण में मदद करता है जो नुकसान को रोकने में भी मददगार साबत हो सकता है तथा नुकसान को रोकने हेतु उचित तकनीकी और प्रबंधकीय कार्रवाई की जा सकती है।
- भारत का वज़िनः**
 - भारतीय विद्युत क्षेत्र को एक सुरक्षित, अनुकूल, टकिअू और डिजिटल रूप से सक्षम पारस्थितिकी तंत्र में परविरतता करना जो हतिधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ सभी के लिये विश्वसनीय व गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा प्रदान करता हो।
- स्मार्ट ग्राहि परनियोजन के लाभः**
 - तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान में कमी।

- पीक लोड मैनेजमेंट, बेहतर क्यूओएस और वशिवसनीयता।
- बजिली खरीद लागत में कमी।
- बेहतर परसिंप्टतप्रबंधन।
- ग्राडि दृश्यता और स्व-उपचार ग्राडि में वृद्धि।
- अक्षय ऊर्जा का एकीकरण और बजिली के लिये सुलभता।
- गतशील टैरफि, मांग प्रतिक्रिया कारयक्रम, नेट मीटरींग जैसे वकिलों में वृद्धि।
- संतुष्ट ग्राहकों और वित्तीय रूप से टकिाऊ वितरण कंपनियाँ आदि।



संबंधित पहल:

- [प्रधानमंत्री सहज बजिली हर घर योजना \(सौभाग्य\)](#):
 - वशिवसनीय और सस्ती बजिली तक पहुँच के माध्यम से ग्रामीण और शहरी परविरों को सशक्त बनाना।
- [हरति ऊर्जा गलयिरा \(GEC\)](#):
 - भारत के राष्ट्रीय संचरण नेटवर्क के साथ ग्राडि से जुड़ी अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करना।
- [राष्ट्रीय समारट ग्राडि मशिन \(NSGM\) और समारट पीटर राष्ट्रीय कारयक्रम \(SMNP\)](#):
 - भारत के बजिली क्षेत्र को एक सुरक्षित, अनुकूलति, टकिाऊ और डिजिटल रूप से सक्षम पारस्थितिकी तंत्र में परविरति करना।

स्रोत: इकोनॉमिकि टाइम्स